



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019  
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur September 05, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8871** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Gangapur city has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Gangapur city. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

**कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)**

प्रपत्र- क

क्र.सं.	सीमा विवरण	वार्ड नं की कुल जनसंख्या
1	टक यूनियन चौराहे से सेड रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेशचंद सिघल के मकान को छोडते हुये शीतला माता मंदिर को शामिल कर श्मशान घाट को छोडते हुये मुजाहिद खा की दुकान को शामिल करते हुये दल्हन मैरिज हॉल को छोडते हुये बाईपास रोड पर पहुचकर निर्माणाधीन सदर थाना को शामिल कर यही से बाई रोड घुमकर बाई पास रोड पर चलते हुये तथा बाईपास रोड दायी ओर की मानपुर की नई आबादी व पूर्व विधायक मानसिंह के हाउस की आसपास की आबादी को शामिल करते हुये वापिस बाईपास रोड पर हिण्डोन करौली की ओर पटोल पंप को छेडते हुये सौरभ गुर्जर के निर्माणशीन भवन को शामिल कर यही से दायी और घुमकर डामर रोड पर पूर्व दिशा में चलते	वार्ड नं 01 की कुल जन संख्या 2488

	हुये शोले की कोठी को छोड़ते हुये टक यूनियन तक वार्ड नं 1 कहलायेगा	
2	ट्रक यूनियन से जयपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुये बंसल मैरिज होम को शामिल कर रूक्मणी पैलेस को छोड़ते हुये माक्षधाम को शामिल कर हरगोविंद कटारिया के मकान को छोड़ते हुये ईदगाह चौराहा होते हुये ईदगाह को शामिल करते हुये कैलाश माली की दुकान को छोड़ते हुये नसिंग पेट्रोल पंप को शामिल करते हुये जयपुर बाईपास चौराहे से दायी ओर घुकर बाईपास रोड पर चतले हुये डा माधोसिंह मकान को शामिल करते हुए आवतार सिंह पेट्रोल पंप को शामिल करते हुये बाईपास रोड सौरभ गुर्जर के निर्माणाधीन बियरबार से दायी और घुकर नवनिर्मात डामर रोड पर पूर्व दशा में चतले हुये शोला की कोठी को शामिल करते हुये ट्रक येनियन चौराहे तक वार्ड नं 2 कहलायेगा	वार्ड नं 02 की कुल जन संख्या 2155
3	ईदगाह चौराहे से जयपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुये अग्रवाल महाविद्यालय को शामिल करते हुये हरिसिंह के मकान को छोड़ते हुये बिजली पावर हाउस को शामिल करते हुये दाउजी बालाजी को छोड़ते हुये ओमी मावई के मकान से बाड़ू ओर घुकर दक्षीण में कच्चे रास्ते पर सीधे सीधे चलते हुये सफेदा के खेत में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय नीवन को छोड़कर दीवार के सहारे चलते हुये प्रकाश मीना के मकान से सामने होकर दयाल हरिजन के महान को शामिल कर कल्लो गुर्जर के मकान को छोड़ते हुये यही से दायी ओर घूमकर जगदीश प्रजापत के मकान को शामिल कर हरिजन बस्ती में विजय हरिजन सीताराम हरिजन के मकान को छोड़ते हुये सामने से निकल कर सतीश धामोनिया के खाली प्लाट से बाई ओर घूमकर हिंगोटिया रोड पर बाई ओर चलते हुये सरकारी स्कूल के सामने होते हुये सवाई माधोपुर रोड पर बाई ओर घूमकर सवाई माधोपुर रोड पर चतले हयु सोनी मैरिज होल को शामिल कर पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सामने से निकल कर ईदगाह चौराहे तक वार्ड नं 03 कहलायेगा	वार्ड नं 03 की कुल जन संख्या 2225
4	जयपुर रोड ओमी गुर्जर के मकान से श्रीजी बालाजी स्टोनसे जयपुर रोड पर चलते हुये जयपुर बाईपास चौराहे होते हुये क्रियेटिव स्कूल को छोड़ते हुये सीपी हास्तपीटल को शामिल करते हयु भजन आश्रम नर्सरी से बाई ओर घूमकर नगर परिषद की बाहरी सीमा के सहारे सहारे चतले हुये एस टी पी 4 व अग्रवाल कर्मचारी कालोनी को शामिल करते हुये सीधे हिंगोटिया रोड पर निकल कर बाई ओर घूमकर चलते हुये अग्रवाल कन्या विद्यालय को शामिल करते हुये सतीश धामोनिया के खाली प्लाट से बाई ओर घूमकर सीताराम व जगदीश प्रजापत के मकान को छोड़कर कल्लो गुर्जर के मकान को शामिल कर यही से बाई ओर घुकर दयाल हरिजन के मकान को छोड़कर प्रकाश मीना के मकान को शामिल कर सीधे सीधे खाली खेत से निकलकर सफेदा के खेत से हाते हुये अग्रवाल कन्या	वार्ड नं 04 की कुल जन संख्या 2288

	विद्यालय के पीछे दीवार सहारे सहारे कच्चे रास्ते पर उत्तर की ओर चतले हुये जयपुर रोड ओमी गुर्जर के मकान तक वार्ड नं 4 कहलायेगा	
5	सवाई माधोपुर रोड राजकीय प्राथमिक विद्यालय से हिंगोटिया रोड पर चलते हुये भरोसी हरिजन मुरारी हरिजन के मकान को शामिल करते हुये सूरज हरिजन के मकान को छोडते हुये भाडो के मकान से बाई ओर घूकर कच्चे रास्ते पर चतले हुये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामप्रसाद माली के दायी ओर के मकान को छोडकर बाई ओर के मकान को शामिल कर मालियों के हनुमान मंदिर से बाई ओर घूमकर कैलाश माली के मकान को शामिल कर गोर्धन सदन को छोडकर पक्की रोड पर पूर्व की ओर चलते हुये सैनी शिक्षण संस्थान को शामिल कर पक्की रोड पर सीधे सीधे चतले हुये गिराज रैगर की दुकान शामिल कर रामचरण सोनवाल अध्यापक के मकान को छोडकर पूरण जाटव के मकान को छोकर पारस बाबूलाल हरिजन के मकान को शामिल कर रामप्रसाद हलवाई को छोडकर गिराज जाटव के मकान को शामिल कर यही से वार्ड माधोपुर रोड पर बाई ओर घूकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक यही वार्ड नं 05 कहलायेगा	वार्ड नं 05 की कुल जन संख्या 2189
6	सवाई माधोपुर रोड रामप्रसाद माली हलवाई की दुकान शामिल कर गिराज जाटव के मकान को छोडकर जाटव बस्ती में चतले हुये पूरण जाटव के मकान को छोकर रामचरण रैगर अध्यापक के मकान को शामिल कर गिराज रैगर की दुकान को छोकर सैनी शिक्षण संस्थान स्कूल को छोडकरसे बाई ओर घुमकर कच्चे रास्ते में होकर पक्की रोड पर होते हुये वार्ड माधोपुर रोड होते हुये सवाई माधोपुर रोड पर मखन लाल मीना के मकान को छोडकर बनवारी लाल अध्यापक पालासोद वाले की दुकान से बाई ओर घूकर सवाई माधोपुर रोड पर चलते हुये हीरालाल जाटव पूर्व पार्श्व के मकान को शामिल कर अंबेडकर धर्मशाला को छोडकर रामप्रसाद हलवाई की दुकान तक यही वार्ड नं 06 कहलायेगा	वार्ड नं 06 की कुल जन संख्या 2165
7	सवाई माधोपुर रोड से मखन मीना को शामिल कर सवाई माधोपुर रोड पर चलते हुये राधास्वमी संतसंग भवन को शामिल करते हुये लौहार मकान को छोडते हुये मदनमोहन पेट्रोल पंप को शामिल कर हठीलादास स्कूल को छोडते हुये जगननाथ फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप को छोकर यही से दाई ओर नले में बिजली स्टेशन को छोडते नले में चलते चंबल परियोजना डैम पर निककर यही से हिंगोटिया रोड पर चतले हुये अग्रवाल कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय को छोडकर भाडो के मकान से दायी ओर घूमकर कच्चे रास्ते पर चलते हुये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामप्रसाद माली के दासी ओर के मकान को शामिल कर बायी ओर के मकान को छोडकर मालियों के हनुमान मंदिर से बाई ओर घूमकर कैलाश माली के मकान को छोडकर गावर्धन सदन को शामिल कर पक्की रोड पर पूर्व की ओर चतले हुये सैनी शिक्षण संस्थान को छोडकर यही से दासी	वार्ड नं 07 की कुल जन संख्या 2156

	ओर घुमकर कच्चे रास्ते से होकर पक्की रोड पर होते हुये कस्टम कलेक्टर के मकान को शामिल करते हुये सवाई माधोपुर रोड पर मखन मीना के मकान तक यही वार्ड नं 07 कहलायेगा	
8	हरसहाय माली के मकान सवाई माधोपुर रोड पर से दायी ओर चलते हुये भोलाराम लोधा को शामिल करते हुये उकार सिंह ठाकुर के मकान तक ठाकुर के मकान से दायी ओर घूकर सैनी कॉलोनी की ओर सीधे चलकर गिर्राज सिंह राजपूत के मकान तक नले नले ओमवती कोली को लेकर रेल्वे के नाला पुलिया मुशी खा के मकान तक मुंशी खा के मकान को लेकर रेल्वे की सीमा तक दाये घूमकर दशरथ सिंह के मकान को लेकर रेल्वे पावर हाउस 132 के बी की समस्त आबादी को शामिल करते हुये नगर परिषद की सीमा लल्लू महावर के मकान तक दाये घूमकर जयनारायण गुर्जर के मकान तक दाये घूमकर रामस्वरूप लोधा को शामिल करते हुये जगन्नाथ पटेल से दाये घूमकर सीधे काडू मेम्बर के मकान को लेकर उघाडमल बालाजी को लेकर दाये घूमकर सवाई माधोपुर रोड पर गंगापुर की ओर चलते हुये हरसहाय माली के मकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यही वार्ड नं 08 कहलायेगा	वार्ड नं 08 की कुल जन संख्या 2584
9	चुलीगेट कोली की कोठी को लेकर नले नले गिर्राज मीना लड्डू कोली के मकान को लेकर हनुमान मंदिर को शामिल कर नले से रामराज मीना ड्राईवर को लेकर हनुमान मंदिर सैनी कॉलोनी भैरो जी का मंदिर तक यही से दायी ओर घूकर कच्चे रास्ते से चतले हुये कमला लुहारन को शामिल कर यही से सवाई माधोपुर रोड पर दाई ओर घूकर कटारिया ट्रेडिंग कंपनी को शामिल कर राधास्वमी सत्संग को छोडकर रामप्रसाद रैगर की दुकान शामिल कर अंबेडकर धर्मशाला को छोडते हुये यही से दायी ओर घूकर चुलीगेट शमशान रोड पर चतले हुये ववाटर पंप हाउस को छोकर कोली की कोठी तक यही वार्ड नं 09 कहलायेगा	वार्ड नं 09 की कुल जन संख्या 2176
10	चुलीगेट शमशान रोड से भानू पारिक के मकान से बबलू सैनी की दुकान को छोडते हुये बबलू शर्मा के मकान से छोकर यही दायी ओर घूकर रवि पारिक के मकान को शामिल कर बाई ओर घुमकर आगे चलकर बाई ओर घूमकर विजय सैनी राशन की दुकान को शामिल कर कल्याण जी रोड पर बाई ओर घुमकर राज टेलर को शामिल कर सदर थाना को छोकर सवाई माधोपुर रोड पर बाई ओर घुमकर आर्य किराना स्ओर को शामिल कर रामप्रसाद हलवाई को छोकर अंबेडकर धर्मशाला को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर चुली गेट शमशान रोड पर चलते हुये भानू पारिक के मकान तक यही वार्ड नं 10 कहलायेगा	वार्ड नं 10 की कुल जन संख्या 2196
11	कल्याणजी रोड ईश्वर कण्डेरा के मकान से सोनिया बाल मन्दिर को शामिल कर प्रहलाद शर्मा को छोड यही बाई ओर घूमकर रवि पचेरवाल के मकान को शामिल कर नाला पर दायी ओर घुमकर शेर मोहम्मद को छोड	वार्ड नं 11 की कुल जन

	यही बाईं ओर घूमकर मस्जिद को छोड़ यही से दायाँ ओर घूम कर अल्लावक्स के मकान को शामिल कर नूर मोहम्मद के मकान को छोड़कर यही से बाईं ओर घुमकर पिल्लू के मकान को छोड़कर ईमामी अचार को शामिल कर कमरूददीन को छोड़ यही से चूलीगेट रोड शमशान रोड पर दायाँ ओर घुमकर रामबाग को शामिल कर बगीची को छोड़ वाटर पम्प हाउस को शामिल कर लतीफ के मकान को शामिल कर यही दायाँ ओर घूमकर बबलू सैनी की दुकान शामिल कर विजेन्द्र शर्मा के मकान को छोड़कर बल्लू शर्मा के मकान से दायाँ ओर घूमकर रवि पारिक के मकान से वाईं ओर घूमकर आगे चलकर वाईं ओर घूमकर विजय कुमार सैनी राशन की दुकान छोड़कर यहीं से कल्याण जी रोड पर दायाँ ओर घूमकर वर्षा किराना स्टोर को हरि हरिजन को शामिल कर ईश्वर कंडेरा के मकान तक वाड नं 11 कहलायेगा	संख्या 2305
12	ईदगाह चौराहे से गिराज माली की दुकान से सवाई माधोपुर रोड पर चलते हुये पोस्ट आफिस को शामिल करते हुये सोनी मैरिज होल को छोड़ते हुये टालमचंद के मकान को शामिल कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय को छोड़ते हुये सदर थाना को शामिल कर यही से बाईं ओर घूमकर राज टेलर को छोड़ते हुये वर्षा किराना स्टोर लालाराम सैनी की दुकान को छोड़ते हुये पूर्व पार्श्व बाबललाल धोबी की गली से निकलकर खण्डेलवाल स्कूल को शामिल कर धाकड के मकान को छोड़ते हुये यही से मुख्य सडक पर दायाँ ओर घुमकर लेदिया वाले के मकान को शामिल कर मोक्षधाम को छोड़ते हुये ईदगाह चौराहे पर गिराज माली की दुकान पर मिलता है वाड नं 12 कहलायेगा	वाड नं 12 की कुल जन संख्या 2169
13	मुख्य जयपुर रोड पर खण्डेलवाल धर्मशाला तक से ट्रक यूनियन की तरफ चलते हुये रूकमणी पैलेस पल्लीवाल पेट्रोल पम्प को शामिल कर सिचाई विभाग से दायाँ ओर घूमकर सत्यनारायण शर्मा के मकान को छोड़कर राजाराम गुर्जर के मकान को शामिल कर यही से दायाँ ओर घूमकर धर्मेन्द्र शर्मा के मकान को शामिल कर हरिओम जनरल स्टोर को छोड़ते हुये ए.जी. फेन्सी व्यूटी कलेक्शन को शामिल कर यही से वायीं ओर घूमकर घास मण्डी की तरफ चलते हुये रमेश मीना के मकान को शामिल कर नेहा इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ते हुये अरविन्द टेण्ट हाऊस को शामिल कर गुर्जर चैक से हुये गणेश जी हनुमान जी मन्दिर को शामिल कर कल्याण जी मन्दिर को छोड़ते हुये गुर्जरो का डाडा शामिल कर निरंजन जैमनी के मकान को छोड़ते हुये पूरण मल के मकान को शामिल कर नले की कोठी को छोड़ते हुये यही से दायाँ ओर घुमकर पूर्व पार्श्व धोबी को शामिल करते हुये खण्डेलवाल स्कूल को छोड़ते हुये धाकड के मकान को शामिल करते हुये मुख्य जयपुर रोड पर खण्डेलवाल धर्मशाला तक । यही वाड नं 13 कहलायेगा	वाड नं 13 की कुल जन संख्या 2362

14	<p>चुलीगेट हाडोट्या कॉलोनी डी0पी0 के पास पांची के मकान से खाली खेत को छोड़ते हुये कमल सोनी के मकान को शामिल कर सीता सदन चिरंजी लाल शर्मा के मकान को शामिल कर वायी ओर घूमकर खाली खेत को शामिल कर सुगन प्रजापत के मकान को छोड़ते हुये यही से दायी ओर घूमकर पुरुषोत्तम शर्मा के मकान को शामिल कर यही बाईं ओर घूमकर अवधेष मास्टर को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर डवरिया उपाध्याय के मकान को शामिल कर रामजीलाल शर्मा वासवाडा वाले के मकान को छोड़ते हुये योगेन्द्र के मकान को शामिल कर कल्याण जी रोड पर वायी ओर घूमकर निरजन जैमनी रोड के हनुमान मन्दिर शामिल आमरिया सदन छोड़ के ईश्वर कन्डेरा को शामिल कर यही से वाईं ओर घूमकर सोकिया वाल मन्दिर को छोड़कर प्रहलाद शर्मा के मकान शामिल कर यही से वाईं ओर घूमकर रवि पचेरवाल को नाले को पार कर दाईं ओर घूमकर शेर मोहम्मद के मकान को शामिल कर यही से वाईं ओर घूमकर अल्लाबक्स के मकान को छोड़ते हुये नूर मोहम्मद के मकान को शामिल करते हुये यही से वाईं ओर घूमकर पिल्लू के मकान को शामिल कर ईमामी के मकान को छोड़ते हुये कमरूद्दीन के मकान को शामिल कर यही से वाईं ओर घूमकर मदिना मस्जिद को छोड़ते हुये हाडौतया कॉलोनी डी.पी. पाची के मकान तक । वार्ड नं 14 कहलायेगा।</p>	<p>वार्ड नं 14 की कुल जन संख्या 2164</p>
.15	<p>मिर्जापुर चुलीगेट रोड पर ट्रान्सफार्मर से पाची के मकान को छोड़कर दायी ओर के खाली खेत को शामिल कर कमल सोनी के मकान को छोड़ते हुये चिरंजी शर्मा के मकान को छोड़ते हुये हुकम रीडर के मकान को शामिल करते हुये दामोदर गुप्ता का मकान लक्ष्मीनारायण पटवारी का मकान व रामस्वरूप के मकान को शामिल करते हुये कल्याण जी रोड पर रामबाबू नल वाले के प्लाट को लेकर कल्याण जी मन्दिर को शामिल करते हुये गोविन्द के मकान घास मण्डी दर्जी के मकान को लेते हुये गिराज महन्त को शामिल कर एम.एन. मिश्र घनश्याम लखेरा एवं कुच्छमुण्डा के मकान को लेते हुये राजेन्द्र मिश्रा गोविन्द नाई, रविकान्त मिश्र, के मकान को छोड़ते हुये चुलीगेट रोड पर भडभुजा की दुकान को छोड़ते हुये यही से दायी ओर घूमकर चूली गेट रोड पर चलते हुये हनुमान जी के मन्दिर को शामिल करते हुये पूर्व पार्श्व गिरार्ज प्रसाद शर्मा के मकान को छोड़ते हुये मिश्र धर्मशाला को शामिल कर स्कुल नं0 02 को छोड़ते हुये मिर्जापुर चुलीगेट पर ट्रान्सफार्मर तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 15 कहलायेगा ।</p>	<p>वार्ड नं 15 की कुल जन संख्या 2175</p>
16	<p>स्कुल नं0 01 को शामिल करते हुये व कैलाश टाकिज को छोड़ते हुये व चैक वाले बालाजी , कैलाश टाकिज वाले की कपडे की दुकान को शामिल कर पंसारी गली में होकर हुकम पहलवान के मकान को लेते हुये चुलीगेट</p>	<p>वार्ड नं 16 की कुल जन संख्या</p>

	रोड पर भडभूजा, भगवान मेठी के मकान को शामिल करते हुये दाये मुडकर गोविन्द नाई, राजेन्द्र मिश्र वकील, कुसाय वालो का मकान, रविकान्त, हनुमान, राजेन्द्र सोनी हनुमान जिंगानिया को शामिल करते हुये ओम टावर को लेकर रमेश मीना के मकान को छोडते हुये ट्रक यूनियन की तरफ चलते हुये हरिओम जनरल स्टोर को शामिल करते हुये एजी .फेन्सी व्यूटी कलेक्शन को छोडते हुये यही से दायी ओर घूमकर धर्मन्द्र शर्मा के मकान को छोडते हुये राजाराम गुर्जर के मकान को छोडते हुये यही से वायी और घूमकर सत्यनारायण शर्मा के मकान को शामिल कर मुख्य सडक पर निकल कर शिवालय को छोडते हुये यही से दायी ओर घूमकर स्कुल नं0 01 तक समस्त दाये हाथ की आबादी। यह वार्ड नं 16 कहलायेगा ।	2598
17	कैलाश टाकिज से मस्जिद की ओर चलते हुये मस्जिद को लेकर बुन्दु की दुकान तक दाये मुडकर बिन्दु धोबी की दुकान तक दाये घूमकर रामावतार जायसवाल के मकान से वाये मुडकर पत्तल दोना वाली गली में चलकर सुरेश साडी की दुकान तक सुरेश की दुकान से दाये मुडकर खारी बाजार होते हुये चौपड तक चौपड में दाये घूमकर बालाजी चौक होते हुये कैलाश टाकिज तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 17 कहलायेगा ।	वार्ड नं 17 की कुल जन संख्या 2620
18	डॉ0 पाराशर मेडिकल स्टोर से दायी ओर सीधे सीधे चलते हुये विकास चश्मे वाले को शामिल करते हुये वैष्णव ज्यूस सेन्टर तक चौपड तक व चौपड से दायी ओर चलते हुये खारी बाजार से चलते हुये वन्दना शोरूम को शामिल करते हुये बागोरिया स्टोर तक व बागोरिया स्टोर हुये बजरंगा मुनीम की दुकानो तक एवं कमला फ्लोर मिल से दायी ओर किशोरी लाल के मकान तक व किशोर लाल के मकान से दायी ओर चलते हुये टीन वाले महादेव जी तक व टीन वाले महादेव जी से वायी ओर पतली गली में चलते हुये महन्तो के मकान को शामिल करते हुये राकेश पण्डित को शामिल करते हुये महक लेडिज टेलर तक व यही से दायी ओर चलते हुये श्री राम स्कुल को शामिल करते हुये एवं मधुवाला शर्मा के नये मकान को शामिल करते हुये सरीफन चाची के मकान तक व यही से दायी ओर चलते हुये पाराशर मेडिकल स्टोर तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 18 कहलायेगा ।	वार्ड नं 18 की कुल जन संख्या 2354
19	रा.उ.प्रा. वि. नं0 02 से पूर्व की ओर रामजीलाल का मकान मस्जिद को शामिल करते हुये सफी मोहम्मद के मकान से दक्षिण की ओर मंजिल हल्दिया भवन से पूर्व की ओर पी.एच.सी. अस्पताल मुन्ना टेन्ट हाऊस नं0 02 चिरंजी के मकान से लेडिज टेलर हुसैन खा से पश्चिम की ओर बनवारी गुप्ता का मकान उत्तर की ओर मोहन डीलर को शामिल करते हुये न. 2 स्कुल तक चिरंजी मास्टर से दक्षिण की ओर मच्छीपुरा वालो के मकान तक पश्चिम में नूर मोहम्मद मुस्ताक मंजिल अलीमुद्दीन से पूर्व में विनायक	वार्ड नं 19 की कुल जन संख्या 2570

	फोटो स्टूडियो से मोहन हनुमान से नं0 02 स्कूल तक यह वार्ड नं 19 कहलायेगा ।	
20	मोहम्मद इस्माइल के मकान से चलकर वाये हाथ की आबादी को लेते हुये गुलाम खा के मकान तक सीधे चलकर मदीना मस्जिद तक मस्जिद को लेते हुये भगवती कॉलेज तक बाये घूमकर पी.के गुप्ता व स्कूल नं0 3 को लेते हुये गिराज माली के मकान तक गिराज माली से दुलीचन्द महावर के मकान तक दाये घूमकर भगवत के मकान को शामिल कर मोहम्मद इस्माइल के मकान तक दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 20 कहलायेगा ।	वार्ड नं 20 की कुल जन संख्या 2598
21	लोको मस्जिद से सीधे चलकर अनसार के मकान तक चलते हुये नले में होकर बाबू खा कि दुकान को लेते हुये दाये हाथ पर चलकर सीलम के मकान को लेकर बोरिंग व स्कूल नं0 10 तक समस्त दाये हाथ की आबादी को शामिल करते हुये बालाजी के मन्दिर तक , बालाजी के मन्दिर से दाये घूमकर राधामोहन के मकान को लेते हुये गौतम भवन तक तथा रेल्वे की सीमा के सहारे चलकर कीरपाडे की मस्जिद तक तथा पिल्लू खा के मकान तक तथा पिल्लू के मकान से लोको की मस्जिद तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 21 कहलायेगा ।	वार्ड नं 21 की कुल जन संख्या 2589
22	शंकर लाल चैवे के मकान से पी.एन.टी. क्वाटर को लेते हुये रामविश्वास के मकान से दाये घूम तथा भगवती स्कूल से वाये वाये घूमकर नाले की और चलकर नाले के रास्ते रास्ते फतेह सिंह के मकान को लेते हुये बाबू लाल गुप्ता के मकान को शामिल करते हुये श्याम लाल माली के मकान तक दाये घूमकर राधामोहन महावर के मकान को लेते हुये मन्नू लाल मास्टर के मकान को लेते हुये रेल्वे के नाले के बगल बगल चलकर रूपवाई मीना के मकान तक दाये घूमकर रेल्वे के क्वाटर से सीधे निकल कर राम मन्दिर के आगे से शंकर लाल चौबे के मकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 22 कहलायेगा ।	वार्ड नं 22 की कुल जन संख्या 2622
23	गुरुद्वारे से चलकर पी.डब्लू.डी. कार्यालय से बायी ओर घुमकर चलते हुये बाबू लाल बैरवा के मकान को छोडते हुये पतली गली से निकते हुये पूर्व पार्शद के मकान को शामिल कर गिराज बैरवा की दुकान को छोडते हुये यही से वाये मुडकर मोची गली में चलते हुये सरकारी स्कूल को छोडते हुये गिराज प्रसाद के मकान से दायी ओर घुमकर किसन पुत्र हरेती हरिजन को लेते हुये गजानन्द हरिजन के मकान को छोडते हुये रामजीलाल वर्मा रीडर को लेकर चैक से बाई और मूडकर कमल खटीक के मकान को लेते हुये पिन्टू नाई से बाये घूमकर केदार ड्राईवर को लेते हुये टाक भवन तक तथा टाक भवन के मकान से जगन्नाथ के मकान तक बाये घूमकर गुरुद्वारे तक समस्त बाये हाथ की आबादी। यह वार्ड नं 23 कहलायेगा।	वार्ड नं 23 की कुल जन संख्या 2536



24	<p>बजरिया रेस्ट हाऊस से चलकर रामशाला को शामिल करते हुये अग्रवाल धर्मशाला को छोड़ते हुये बैरवाओ की धर्मशाला को शामिल कर यही से बायी ओर घूमकर पीपल वाले शिवालय को छोड़कर यही से दायी ओर घूमकर कन्हैया कबाडी को शामिल कर आगरा वाले के मकान को छोड़ते हुये लाला हलवाई के मकान को शामिल करते हुये यही से वायी ओर घूमकर भगवती हरिजन व फकीरा हरिजन के मकान को शामिल कर पूर्व पार्श्व राजेन्द्र धंधट के मकान व वाल्मिकी मन्दिर को छोड़ते हुये गजानन्द हरिजन के मकान को शामिल कर किसन पुत्र हरेती हरिजन के मकान को छोड़कर गिराज प्रसाद वर्मा के मकान को छोड़ते हुये यही से बायी ओर घूमकर सरकारी स्कूल को शामिल करते हुये मोची गली में चलते हुये गिराज प्रसाद बैरवा की दुकान को शामिल करते हुये यही से दायी ओर पतली गली में स्टेशन की तरफ चलते हुये पूर्व पार्श्व अन्जू जाटव के मकान को छोड़ते हुये बाबू लाल बैरवा के मकान को शामिल करते हुये पी.डब्लू.डी कार्यालय को छोड़ते हुये यही से वायी ओर घूमकर रेस्ट हाऊस तक । यह वार्ड नं 24 कहलायेगा ।</p>	<p>वार्ड नं 24 की कुल जन संख्या 2612</p>
25	<p>डा. सेठी के मकान से स्टेशन रोड की ओर चलकर सुनारो के मकान को शामिल करते हुये दाये घूमकर वाल्मिक मन्दिर को शामिल करते हुये पतली गली में निकल कर रामप्रसाद पुत्र गरीबा के मकान के आगे से निकल कर रामजीलाल जोशी की चक्की को लेकर दाये अंगूरी की टाल के आगे से निकलकर पी.एस.सी. क्वाटर के पास टेकचन्द कोली के मकान को लेते हुये मिश्रीलाल तहसीलदार के मकान को शामिल करते हुये प्रकाश मास्टर पून्याराम कोली को लेकर पतली गली में चलकर कानाराम कोली को लेकर डा. सेठी के मकान तक समस्त दाये ओर की आबादी । यह वार्ड नं 25 कहलायेगा ।</p>	<p>वार्ड नं 25 की कुल जन संख्या 2612</p>
26	<p>ललित किशोर वकील के मकान से चलकर कैलाश सुनार के मकान से दाये घूमकर हरीनाथ के मकान को लेते हुये वसीर के मकान तक दाये घूमकर सुलेमान के मकान से चलकर बट्टी धोबी प्रकाश फोटो के मकान से दाये घूमकर काका खन्ना के मकान को लेकर मुमताज के मकान तक आगरा वाले के मकान से रहीसा कब्बाडी , बैरवाओ की बगीची से निकल कर सुरसागर चैराहे पर ललित किशोर वकील तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 26 कहलायेगा ।</p>	<p>वार्ड नं 26संख्या 2276</p>
27	<p>नेहरू पार्क से माल गोदाम रोड पर चलते हुये कोतवाली थाना व नेहरू पार्क को शामिल कर महेन्द्र भट्टरा वाले को छोड़कर माल गोदाम चैराहे से दायी ओर घूमकर यही से सन्तोषी माता मन्दिर को शामिल करते हुये बाबा सोनी चैराहे से दायी ओर घूमकर रेस्ट हाऊस को शामिल कर वेदप्रकाश पार्श्व की दुकान से दायी ओर घूमकर रामशाला को छोड़ते हुये अग्रवाल धर्मशाला को</p>	<p>वार्ड नं 27की कुल जन संख्या 2255</p>

	गणपत डी0जे0 साउण्ड की दुकान को शामिल कर गिराज वकिल के मकान को शामिल करते हुये महेश टाकिज को छोडते हुये नेहरू पार्क पर मिलता है। यह वार्ड नं 27 कहलायेगा।	
28	देवी स्टोर चैराहे से नये बाजार में चलते हुये विद्यायक रामकेश मीना के मकान को शामिल करते हुये राजेश गुलयाणी की दुकान व सलावदीया भवन को छोडते हुये फब्बारा चैक से दायी ओर घूमकर कचहरी रोड पर चलते हुये वेयर हाऊस को शामिल करते हुये एस.डी.एम. निवास को छोडते हुये कचहरी सर्किल से दायी ओर घुमकर कोर्ट परिसर को शामिल करते हुये मजिस्ट्रेट निवास को छोडते हुये सब्जी मण्डी को शामिल करते हुये हरिचरण तिराहे से दायी ओर घूमकर कोतवाली थाना को छोडते हुये भडभुजा की दुकान को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर नेहरू पार्क को छोडते हुये महेश टाकिज को शामिल करते हुये गिराज वकील के मकान को छोडते हुये यही से गर्ल्स स्कुल रोड पर दायी ओर गर्ल्स स्कुल को शामिल कर रघुनन्दन पावटा वाले यही से दक्षिणी ओर हल्दिया भवन को शामिल करते हुये ललित किशोर के मकान को छोडते हुये जमाल खान व टोटा हलवाई की दुकान को शामिल कर यही से पश्चिम की ओर सीमेन्ट सडक पर चलते हुये उत्तरी ओर हीरा सिंह ड्राईवर के मकान व सुरसागर सब्जी मण्डी दुबे के मकान व घनश्याम रावत के मकान व चद्वर वाले महादेव जी को शामिल करते हुये ताराचन्द गिरदावर व डालचन्द के मकान कृष्णा पाठशाला श्रीराम पाठशाला को छोडते हुये उत्तर की ओर किशोरी लाल मास्टर को छोडते हुये नर्वदा भवन रामकिशोर रावत राधेश्याम के मकान को शामिल करते हुये नाईयो के मन्दिर पर आकर मिलता है नाईयो के मन्दिर से दायी घूमकर देवी स्टोर चैराहे पर मिलता है। यह वार्ड नं 28 कहलायेगा।	वार्ड नं 28 की कुल जन संख्या 2582
29	कचहरी सर्किल से आई.सी.आई. के ए.टी.एम. को छोडकर गली में चलते हुये कैलाश सिंघल पार्शद के मकान को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर आयुक्त सौरभ जिन्दल के मकान को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर गली में सीधे सीधे चलते हुये आर्दश विद्या मन्दिर को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर माल गोदाम की पुलिया पर निकलकर यही से दायी ओर घूमकर महेन्द्र भट्टरा वाले शामिल करते हुये हरिचरण तिराहे से दायी ओर घूमकर सब्जी मण्डी को छोडते हुये बजरंग होटल को शामिल करते हुये एस.डी.ओ. कोर्ट को छोडते हुये मजिस्ट्रेट निवास को शामिल करते हुये कचहरी सर्किल पर मिलता है। यह वार्ड नं 29 कहलायेगा।	वार्ड नं 29 की कुल जन संख्या 2295
30	फब्बारा चैक पर अशोक कुमार की जूस की दुकान से सीधे नये बाजार से चलकर देवी स्टोर चैराहे पर कोने की दुकान से डा. लोहरे लाल को शामिल करते हुये खाजू नमकीन वाले गली में दाये घूमकर पत्तल दौना वालो की गली में सीधे चलकर कैलाश को लेते हुये दाये घूमकर बिन्दु जनरल स्टोर	वार्ड नं 30 की कुल जन संख्या

	को छोड़कर डा0 हकीम को शामिल करते हुये तहसील कार्यालय को शामिल करते हुये फब्बारा चैक पर अशोक कुमार की जूस की दुकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी। यह वार्ड नं 30 कहलायेगा ।	2299
31	जयपुर रोड महरवाल के सामने शंकर जैमनी को शामिल करते हुये भौमिया जी को शामिल करते हुये श्रवण के मकान को लेकर प्रजापति हनुमान के सामने से ओमप्रकाश के मकान दाये घूमकर शान्ति कुंज से गोपाल सिंह के मकान को शामिल कर गुडया का मकान लेते हुये नत्थू बैरवा का मकान शामिल करते हुये बसंत भवन से जयपुर रोड से चलकर पुलिस चैकी शामिल करते हुये विश्वभर पटेल का मकान को शामिल कर शंकर जैमनी के मकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी। यह वार्ड नं 31 कहलायेगा ।	वार्ड नं 31 की कुल जन संख्या 2597
32	अजीज खा एडवोकेट के मकान से जयपुर रोड चलकर गिराज प्रसाद प्रधानाचार्य के मकान तक दाईं और घूमकर गली में मुडकर पंजाबी चुडी वाले को लेकर सारतला भवन को लेकर कोने से वाये घूमकर लालचन्द के मकान से दाये घूमकर बाबू लाल के मकान से दाये मुडकर लियाकत के मकान से बाये घुमकर वालकृष्ण के मकान से दाये घूमकर सीधे चलकर रामसहाय गुप्ता के मकान तक गुप्ता के मकान से दाये घूमकर अभिषेक मैरिज होम को लेकर अजीज एडवोकेट के मकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 32 कहलायेगा ।	वार्ड नं 32 की कुल जन संख्या 2612
33	अली मोहम्मद से अजमेरी के मकान को लेते हुये रामउदित दीक्षित का मकान को शामिल करते हुये हनुमान जी को छोडते हुये कब्रिस्तान को छोडकर मैरिज होम को शामिल करते हुये नहर रोड के डी0पी0 से मुडकर दायी तरफ झब्बू पंसारी के मकान को लेते हुये प्रजापति हनुमान को शामिल करते हुये अली मोहम्मद के मकान तक दायी तरफ की आबादी । यह वार्ड नं 33 कहलायेगा ।	वार्ड नं 33 की कुल जन संख्या 2610
34	तहसील के सामने शिवम मेडिकोज से नहर रोड पर चलते हुये दायी और की आबादी को शामिल करते हुये रमेश सोनी को शामिल करते हुये यह से दायी और मुडने पर नहर के सहारे सहारे चलते हुये इमली वाले पठान वावा को शामिल करते हुये मिनी बाईपास होते हुये फल सब्जी मण्डी के कोने तक दाये घुमकर उदेई मोड पुलिस चैकी को शामिल करते हुये सरकारी डिस्पेंसरी को शामिल करते हुये गुलकन्दी स्कुल, किरण पैलेस गहलोट टेक्स्टर्स पेट्रोल पम्प जेल होते हुये शिवम् मेडीकोज तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 34 कहलायेगा ।	वार्ड नं 34 की कुल जन संख्या 2457
35	35 प्राईवेट बस स्टेण्ड के मुत्रालय से सीधे सीधे चलकर नगर परिषद की ओर चलते हुये दीपक नरूका व नगर परिषद को शामिल करते हुये हायर सैकण्डरी स्कुल के ए व्लाक को छोडते हुये सिंह कमला हास्पिटल को शामिल करते हुये रेल्वे लाईन की सीमा तक व यही से दायी ओर घूमकर	वार्ड नं 35 की कुल जन संख्या 2466

	रेल्वे सीमा के सहारे सहारे चलते हुये आर्दष विद्या मन्दिर को छोडकर गली में सीधे सीधे निकलकर आयुक्त सौरभ जिन्दल के मकान को छोडकर यही से वायी और घूमकर पार्शर्द कैलाष चन्द सिंघल से दायी और घूमकर गली में चलते हुये आई.सी.आई. के ए.टी.एम. को शामिल कर पंचायत समिति , बिजली पावर हाऊस को शामिल कर व एस.के. हास्पिटल को छोडते हुये फब्बारा चैक व यही से दायी और घूमकर प्राईवट बस स्टेण्ड के शौचालय पर मिलता है। यह वार्ड नं 35 कहलायेगा।	
36	ओसवाल चुगी नाके से उदेई मोड की और चलते हुये मोहित विल्डिंग मेटेरियल तक व यही से दायी और चलकर पी.ए. ट्रेडिंग कम्पनी को छोडते हुये लाल बहादूर शास्त्री स्कुल को शामिल करते हुये सीधे चलकर मुरारी लाल मास्टर के मकान तक व यही से दाये मुडकर मेडिकल वाले के मकान को छोडते हुये शिवलाल के मकान को शामिल करते हुये विजय पैलेस रोड तक व यही से वायी और मुडकर बन्दरिया के बालाजी की और अम्बेडकर छात्रावास को शामिल करते हुये रेल्वे सीमा के सहारे से दायी और की आबादी को शामिल करते हुये दीपक गौरव के मकान को शामिल करते हुये व यही से दायी और चलते हुये सिंह कमला हास्पिटल को छोडते हुये हाई सैकेण्डरी के व्लाक ए की वाउण्ड्री तक व यही से दायी और की आबादी को लेते हुये व वायी हाथ की समस्त आबादी को छोडते हुये हाई सैकण्डरी वाउण्डरी के सहारे चलते हुये सोनी मशीनरी सेर तक व यही से दायी और चलते हुये ओसवाल चुगी नाके तक समस्त दायी और की आबादी । यह वार्ड नं 36 कहलायेगा ।	वार्ड नं 36 की कुल जन संख्या 2257
37	मनोरथ सिद् हनुमान जी के सामने से चमेली आर्यन वक्रस को शामिल कर बन्दरिया बालाजी की तरफ चलते हुये भगवती कन्या महाविद्यालय को छोडते हुये तुलसी जयसवाल के मकान को छोडते हुये शिवदयाल जोषी के मकान को शामिल करते हुये गंगादेवी के मकान को शामिल करते हुये यही से वायी ओर घूमकर मुकेश हलवाई के मकान को छोडकर विजय बैरवा को छोडकर यही से वायी और घूमकर ओमी बैरवा के मकान व शिवालय को छोडते हुये यही से दायी ओर घूमकर प्रहलाद मीना के मकान को छोडते हुये यही से दायी और घूमकर मस्जिद को शामिल करते हुये रेल्वे लाईन तीन पुलिया तक व यही से दायी और घुमकर बन्दरिया बालाजी को शामिल करते हुये रामप्रकाष के मकान को छोडते हुये इन्द्र लाल एडवोकेट के शामिल करते हुये विजय रोड पर जोघपुर मिष्ठान भण्डार के हलवाई के मकान तक व यही से दायी और घूमकर मेडिकल वाले के मकान तक व यही से वायी और घूमकर नागल वाले के मकान को शामिल करते हुये मुरारी लाल के मकान को छोडते हुये सीधे सीधे चलकर लाल बहादुर शास्त्री स्कुल को छोडकर मुख्य हिण्डौन करौली रोड पर निकल कर यही से दायी और घूमकर हीरो शोरूम को शामिल कर गुलकन्दी स्कूल को छोडकर चमेली	वार्ड नं 37 की कुल जन संख्या 2511

	आर्यन वक्रस पर मिलता है। यह वार्ड नं 37 कहलायेगा।	
38	जगन लाल पटवारी की उदेई मोड पर दुकान से चलकर सीधे सीधे लाटा हाऊस को लेकर लक्ष्मण पाल जादोन के मकान को लेकर प्रहलाद मीना के मकान तक व यही से दाये और चलते हुये शिवालय वको शामिल करते हुये यही से वायी ओर घूमकर ओमी बैरवा के मकान को शामिल कर विजय बैरवा के मकान को शामिल कर यही से दायी और घूमकर मुकेश हलवाई के मकान को शामिल कर गंगादेवी के मकान को छोडकर यही से दायी और घूमकर सीधे सीधे चलकर जायसवाल के मकान को शामिल कर भगवती कालेज को शामिल करते हुये रावत की दुकान के कोने तक व यही से दाये और घूमकर जगन पटवारी की दुकान तक समस्त दाये हाथ की आबादी । यह वार्ड नं 38 कहलायेगा ।	वार्ड नं 38 की कुल जन संख्या 2312
39	उदेई मोड पर पुरुषोत्तम पटवारी की दुकान को लेते हुये जगन पटवारी की दुकान को छोडते हुये वाये और चलते हुये किरोडी लाल अग्रवाल के मकान को शामिल करते हुये लाटा हाऊस को छोडते हुये सावुत्या के मकान तक व यही से वाये ओर चलकर सीधे सीधे डा0 हसंराज के खाली प्लाट को छोडते हुये राजेन्द्र गुप्ता व राजेन्द्र वैष्णव के मकान को शामिल करते हुये रामदयाल शर्मा के मकान तक व यही से वाये और चलते हुये हिण्डौन करोली रोड पर डी0पी0 के पास सुभाष गुप्ता के मकान तक व यही से वाये ओर चलते हुये पुरुषोत्तम पटवारी की दुकान पर मिलता है। यह वार्ड नं 39 कहलायेगा ।	वार्ड नं 39 की कुल जन संख्या 2622
40	डा. हसंराज मीना के खाली प्लाट से दाये ओर सीधे चलकर दीपेश चक्की वाले तक व यही से दाये और चलते हुये नेहरू पब्लिक स्कुल को शामिल करते हुये राजेन्द्र पण्डित के मकान तक व यही से दायी ओर चलकर बाबू लाल राव के मकान को शामिल करते हुये रफीक के मकान को शामिल करते हुये गुड्डू काजी के कोने तक व यही से दायी ओर चलकर मस्जिद को छोडकर के0डी0 स्कुल को शामिल करते हुये डा. हसंराज के खाली प्लाट पर मिलता है। यह वार्ड नं 40 कहलायेगा ।	वार्ड नं 40 की कुल जन संख्या 2298
41	उमेश टेलर से दायी ओर की आवादी को शामिल करते हुये गोपाल लाल के मकान तक व यही से दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुये सर्वोदय स्कुल को छोडकर बसन्ती के मकान को शामिल करते हुये गुड्डी शर्मा के मकान को छोडकर जसराम मीना कस्टम के मकान को शामिल करते हुये जान रश्मि स्कुल तक व यही से जान रश्मि स्कुल के पास खेतो में होकर जान सिंह मावई के खेत की वाउण्डरी को लेते हुये दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुये तेजराम मीना खुपरा वाले के मकान को शामिल करत हुये हरसहाय मीना उदेई वाले के मकान को छोडकर दायी ओर की आवादी को लेते हुये डा. हेमेन्द्र तिवारी के मकान को लेते हुये सीध रोड से होकर	वार्ड नं 41 की कुल जन संख्या 2572

	प. राधेश्याम पाराशर के मकान को छोड़ते हुये गुड्डू शर्मा के मकान तक व यही से दाये ओर चलते हुये हनुमान जी मन्दिर को शामिल करते हुये रेल्वे सीमा के सहारे सहारे डी0पी0 तक व यही से दाये ओर की आबादी को लेते हुये दिनेश प्रजापत के मकान तक व यही से दायी ओर चलते हुये ओमप्रकाश वैष्णव के मकान तक व यही से वायी ओर चलते हुये दायी ओर की आबादी को लेते हुये बायी ओर की आवादी को छोड़ते हुये नेहरू पब्लिक स्कूल को छोड़कर उमेश के मकान पर मिलता है। यह वार्ड नं 41 कहलायेगा ।	
42	डा हरिचरण शर्मा के मकान से हिण्डौन करौली मुख्य मार्ग पर सालौदा की ओर चलते हुये अर्जुन पैलेस को शामिल करते हुये हरिमोहन गुप्ता पूर्व पार्षद की दुकान तक व यही से दायी ओर चलकर बसुन्धरा कालोनी में चलते हुये मीन भगवान मन्दिर को छोड़ते हुये दायी ओर की आबादी को लेते हुये आर.आर.मीना स्टेशन अधीक्षक बालौती वाले के मकान तक, व यही से दायी ओर चलते हुये बच्चू के मकान तक की दायी ओर की आबादी को लेते हुये माया कुम्हार के मकान तक व यही से दायी ओर चलते हुये दायी ओर की आबादी को लेते हुये सर्वोदय स्कूल को शामिल करते हुये डा0 हरिचरण शर्मा के मकान पर मिलता है। यह वार्ड नं 42 कहलायेगा ।	वार्ड नं 42 की कुल जन संख्या 2462
43	यदुवंशी इनवेटर वाले की दुकान से दायी ओर चलते हुये हिण्डौन करौली रोड तिराहे तक व यही से दायी ओर चलते हुये करौली फाटक तक व यही से रेल्वे लाईन के सहारे हनुमान जी मन्दिर व गुड्डू शर्मा को छोड़ते हुये मीना जी अध्यापक व प. राधेश्याम पाराशर के मकान को शामिल करते हुये व यही से सीधे सीधे चलकर हरसहाय मीना उदेई वाले के मकान को शामिल करते हुये तेजराम मीना खूपरा वाले के मकान को छोड़कर व जानसिंह मावई के खेत की वाउण्डरी को छोड़ते हुये रामप्रसाद मीना के मकान को शामिल करते हुये रामभरोसी खाती के मकान तक व यही से दायी ओर घूमकर सीधे चलते हुये खाली प्लाट तक व यही से दायी ओर चलते हुये खाली प्लाट तक व यही से दायी ओर चलते हुये मोहन ठेकेदार के खाली प्लाट तक व आर.आर. मीना स्टेशन अधीक्षक के मकान को छोड़ते हुये मीन भगवान के मन्दिर को शामिल करते हुये यदुवंशी इनवेटर वाले की दुकान पर मिलता है। यह वार्ड नं 43 कहलायेगा ।	वार्ड नं 43 की कुल जन संख्या 2395
44	सालौदा तिरोह पुरानी चुगी नाका से हिण्डौन रोड पर चलते हुये हिण्डौन रेल्वे फाटक तक व यही से दायी ओर रेल्वे लाईन के सहारे - सहारे चलते हुये दायी ओर की आबादी को लेते हुये करौली फाटक तक व यही से दायी ओर की आवादी को लेते हुये सालौदा तिराहे पुरानी चुगी नाके पर मिलता है। यह वार्ड नं 44 कहलायेगा	वार्ड नं 44 की कुल जन संख्या 2316
45	हिंडौन रोड पर डी.पी से साहीब पेंटर को शामिल कर दाये घूम कर धर्म	वार्ड नं 45

	<p>सिंह मीना छोटी उदेई वाले को शामिल कर रहीम किराना स्टोर को छोड़कर दायें मुड़कर आशीष स्कूल को शामिल कर डावरा वाले के मकान को छोड़कर धनफुल ड्राइवर को लेकर अशोक पंडत को छोड़कर दाएं मुड़ कर हमीद तेली को छोड़कर अब्बासी किराना स्टोर को लेकर एस.डी स्कूल को छोड़कर अनिल अग्रवाल को लेकर प्रेमराज मीना बलदेवपूरा वाले को छोड़कर भजनलाल मीना मैनेजर को लेकर सुरेश मीना की लेते हुए एफ.सी.आई रोड पर कैलाश मीना को छोड़कर दायें घूमकर एफ.सी.आई रोड रीको की ओर चलकर रीको को शामिल कर बाईपास तक दायें मुड़कर बाईपास तक दायें मुड़कर बाईपास पर चलते हुए हिंडौन रोड तक दायें मुड़कर सचिन होटल की छोड़कर हिंडौन पर डी.पी के पास साहिब पेंटर की दुकान तक समस्त दायें हाथ की आबादी   यह वार्ड नं. 45 कहलायेगा</p>	<p>की कुल जन संख्या 2549</p>
46	<p>एफ.सी.आई रोड पर मोहन खाती के मकान से चलकर रंगलाल के मकान को शामिल कर कैलाश मीना की लेकर दायें मुड़कर सुरेश मीना को छोड़कर भजन मीना की छोड़कर प्रेमराज मीना बलदेव पूरा वाले के मकान को शामिल कर अनिल अग्रवाल को छोड़कर एस.डी स्कूल को शामिल कर अब्बासी किराना स्टोर को छोड़ते हुये हमीद तेली को लेकर वाये मुड़कर अशोक पंडत को शामिल कर धनफूल ड्राइवर को छोड़कर आशीष स्कूल को छोड़कर रहीम वालेकर किराना शामिल कर धर्मसिंह मीना छोटी उदेई वाले को छोड़कर ताज को लेते हुए हिंडौन रोड पर डी.पी पर साहिद पेंटर को छोड़कर दायें घूमकर सालौदा चौराहे की ओर रिया हॉस्पिटल को शामिल कर ओवरसीज बैंक को शामिल कर दायें मुड़कर रामहरी मीना को लेते हुये नीरज जे.ई.एन को लेकर देवी मन्दिर के सामने से निकल कर कैलाशी के मकान को लेकर शिवकेश ए.ई.एन को लेते सुरजान मीना को लेकर, दायें मुड़कर एफ.सी.आई रोड पर मोहन खाती के मकान तक दायें हाथ की आबादी   वार्ड नं. 46 कहलायेगा  </p>	<p>वार्ड नं 46की कुल जन संख्या 2206</p>
47	<p>यस् बैंक से सीधे सीधे दायीं ओर चलकर ऐक्सिस बैंक को लेते हुए गजानंद जांगिड के मकान तक व् यही से दायीं ओर चलकर जांगिड भवन को छोड़ते हुये आर.पी मीना के मकान को शामिल करते हुए दायीं ओर की आबादी को लेते हुए केदार लाल मीना के मकान सामने खाली प्लाट को छोड़कर व् जनक राज शोप वाले के मकान को शामिल करते हुए चौथी लाल सकीपुरा वाले के मकान तक व् यही से दायीं ओर चलकर मल्लू राम के मकान को छोड़कर देवी जी के मंदिर को शामिल करते हुये सीधे सीधे अर्पणा मीना के मकान को छोड़कर बाध सिंह के मकान को शामिल करते हुये हरिमोहन जी के मकान को शामिल करते हुये अजय एजेंसी को छोड़कर सुरेश पटवारी की दुकान तक व् यही से दायीं ओर चलकर उदेई मोड की तरफ रामकेश ए.पी.पी के मकान तक व् यही से दायीं ओर चलकर देवी सिंह के मकान</p>	<p>वार्ड नं 47 की कुल जन संख्या 2164</p>

	तक व यही से दायीं ओर चलकर ओमप्रकाश वरिष्ठ अध्यापक के मकान को शामिल करते हुये व यही से दायीं ओर चलते हुए गुरुकुल छात्रावास को शामिल करते हुये यश बैंक पर मिलता है   वार्ड नं.47 कहलायेगा	
48	उपकार होटल उदेई मोड से चलकर सीधे सीधे लाल मन्दिर, तुलारा मैरिज होम को शामिल करते हुये पीतलिया ऐजेन्सी तक व यही से दायी ओर चलते हुये यश बैंक को छोड़ते हुये उसी गली में दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुये गुरुकुल छात्रावास को छोड़ते हुये महेश ड्राईवर के मकान को शामिल करते हुये टीकम चन्द गुप्ता के बगल के खाली प्लाट तक व ओमप्रकाश वरिष्ठ अध्यापक के मकान को छोड़ते हुये दाये ओर की आबादी को लेते हुये रमेशचन्द गुप्ता टीकिया वाले के मकान तक व देवी सिंह के मकान को छोड़ते हुये दायी ओर चलते हुये हिण्डौन करोली मार्ग पर पप्पू डेटर तक व रामकेश ए.पी.पी. के मकान को छोड़ते हुये दायी ओर चलते हुये सेन्ट्रल बैंक को शामिल करते हुये उपकार होटल पर मिलता है। यह वार्ड नं 48 कहलायेगा	वार्ड नं 48 की कुल जन संख्या 2355
49	नादौती रोड पर धीरावत के मकान से दाये मुडकर कालेज को छोड़कर नंगे बाबा गौशाला को शामिल कर डामर रोड तक काजीयो का तलाव व प्रस्तावित रेल्वे लाईन के आस पास की नई आबादी को शामिल कर आगे चलकर रिको ऐरिया से निकल कर एफ.सी.आई. रोड पर चलते हुये गोदाम को छोड़कर धून्धीराम को लेते हुये तिकोने को शामिल कर नादौती रोड पर दाये घूमकर संतोष प्रोपर्टी को शामिल कर आर्शीवाद पैराडाईज को लेकर नादौती रोड स्थित धीरावत के मकान तक दाये हाथ की आबादी   यह वार्ड नं 49 कहलायेगा	वार्ड नं 49 की कुल जन संख्या 2455
50	नादौती रोड महाविद्यालय से चलकर चौराहे तक दाये घूमकर वाईपास सीमा पर चलते हुये रिको को छोड़कर एफ.सी.आई. गोदाम की ओर चलकर नई रेल्वे लाईन व काजी के तालाब के आस पास की समस्त आबादी को छोड़ते हुये एफ.सी.आई. गोदाम रोड से कच्चे रास्ते से नंगे बाबा की गौशाला को छोड़कर नादौती रोड महाविद्यालय तक समस्त दाये हाथ की आबादी लेते हुये नादौती रोड पर महाविद्यालय पर मिलाता है। यह वार्ड नं 50 कहलायेगा	वार्ड नं 50 की कुल जन संख्या 2618
51	रामलड्डू बाबा की समाधी को शामिल करते हुये अन्दर की तरफ दायी और स्व. रूपनारायण शर्मा के मकान को शामिल करते हुये आगे रोड से चौराहे से सीधा प्यारे लाल पटेल के मकान को लेते हुये धर्म सिंह मीना के मकान को छोड़ते हुये सरकारी नाले के सहारे सहारे चलते हुये दायी और मैन रोड छुट्टन लाल जोगी के मकान को लेते हुये सोलंकी भवन को शामिल करते हुये नाजीम वाले तालाब को शामिल करते हुये मैन नादौती रोड पर आकर राजकीय महाविद्यालय को छोड़ते हुये सपेरा बस्ती , कृषि विभाग , सिचाई	वार्ड नं 51 की कुल जन संख्या 2334



	विभाग को शामिल करते हुये मैन नादौती रोड से मैन रोड दायी ओर नीरज मेमोरियल स्कूल को शामिल करते हुये हुण्डेयी शोरूम लेते हुये रामलड्डू बाब की समाधी पर मिलता है। वार्ड नं. 51 कहलायेगा।	
52	मैन नादौती रोड पर राम लड्डू बाबा की समाधी को छोडकर पश्चिम की ओर चलते हुये खटान भवन को शामिल करते हुये चन्दन सिंह के खेत को शामिल करते हुये अंत में सरकारी हेडपम्प से बाये घूमकर देवी सिंह के मकान को शामिल करते हुये कच्चे रास्ते पर सीधे सीधे चलते हुये सिन्धी सीताराम के मकान को छोडते हुये यही से बायी ओर घूमकर कर्मचारी कालोनी के रास्ते पर चलते हुये जिन्द बाबा के स्थान को शामिल करते हुये पूर्व पार्शद वेद प्रकाश शर्मा के मकान को छोडते हुये सुरेश गुप्ता के मकान को शामिल करते हुये हनुमान जी मन्दिर को छोडते हुये मुख्य नादौती पर व यही से बायी ओर घूमकर केषव विद्या पीठ को शामिल करते हुये सन्तोष दुबे(प्रोपटी डीलर) की दुकान को छोडते हुये मैन रोड नादौती रोड पर रामलड्डू बाबा की समाधी तक मिलता है। वार्ड नं 52 कहलायेगा।	वार्ड नं 52 की कुल जन संख्या 2395
53	मैन नादौती रोड से कर्मचारी कालोनी में चलते हुये हनुमान जी मन्दिर को शामिल करते हुये व सुरेश गुप्ता के मकान को छोडते हुये यही से बाये ओर घूमकर जिन्द बाबा के स्थान को छोडते हुये पूर्व पार्शद वेदप्रकाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुये आगे खेतों में सीधे चलकर नाले तक व नाले से दक्षिण की ओर चलकर सीताराम सिन्धी के मकान तक व यही से नाले नाले दक्षिण की ओर चलकर बाबुलाल नारौली वाले की मिल की सडक के अन्तिम कोने तक व यही से पूर्व की ओर सडक सडक चलकर बाबू लाल की मिल तक व यही से पुन दक्षिण की ओर मण्डी के पीछे वाये नाले नाले चलकर कव्रिस्तान की ओर गौशाला नहर को शामिल , शिवम् मैरिज होम को छोडकर नहर के दक्षिण पश्चिम कोने तक व यही से पूर्व की ओर मंगती लाल रघुनाथ बैध को छोडते हुये व सोनी धर्मशाला , बी.एस.एन.एल. को शामिल करते हुये उत्तर की ओर सडक सडक चलते हुये गुलकन्दी स्कूल के पीछे से व थोक सब्जी मण्डी के पीछे होकर उदेई मोड पर गोपाल गुप्ता की दुकान-मकान तक व यही से मैन नादौती रोड की ओर चलकर बंजरगा गुप्ता , विमलेश चतुर्वेदी मण्डी गेट मण्डी परिसर , पुष्पाजंली होटल को शामिल करते हुये कर्मचारी कालोनी पर आकर मिलता है। वार्ड नं 53 कहलायेगा।	वार्ड नं 53 की कुल जन संख्या 2545
54	रहमानीया मस्जिद को शामिल कर सीधे सीधे चलते हुये पार्शद सईद के मकान को शामिल कर नजमुद्दीन के मकान को छोडते हुये मुबीन के मकान से बाईं ओर घूमकर अली के मकान को शामिल कर मिश्री के मकान को छोडते हुये यही से दाईं ओर घूमकर नई अनाज मण्डी के पीछे निकल कर	वार्ड नं 54 की कुल जन संख्या 2291

	बाई और घूमकर कच्चे रास्ते पर चलते हुये खाली खेतों को छोड़ते हुये बजीर अली के मकान को शामिल करते हुये नव निर्मित गंदे नाले के उपर चलते हुये नाले की बाई और की बाउण्डरी के अन्तिम छोर से बायी और घूमकर सीधे हीरालाल तिवारे के नाले पर मिलता है। व यही से वायी और घूमकर नाले के सहारे सहारे चलते हुये रहमानीया मस्जिद तक यह वाई नं 54 कहलायेगा।	
55	लेक कब्रिस्तान शमषान घाट को शामिल करते हुये भुपेन्द्र कुमार गुप्ता के मकान को छोड़ते हुये संकट हनुमान जी के मन्दिर को शामिल करते हुये यही से वायी और घूमकर प्रकाश पाल जादौन के मकान व शिव निवास को शामिल करते हुये धोबी की दुकान को छोड़ते हुये ईदू मोहम्मद के मकान को शामिल कर न्यु मुस्कान ब्यूटी पार्लर को छोड़कर नजीम के मकान शामिल कर यही से दायी और घूमकर पूर्व पार्शद अब्दुल समद के मकान को छोड़कर शाहिन स्कुल के वायी और घूमकर मस्जिद को शामिल कर सीधे सीधे हीरालाल तिवारे से आने वाले नाले की पुलिया से दायी और घूमकर नाले के सहारे सहारे चलकर रहमानीया मस्जिद की पुलिया से दायी और घूमकर पार्शद सहीद खा का मकान छोड़कर नजमुद्दीन के मकान को शामिल कर मुबीन के मकान को शामिल करते हुये यही से बायी और घूमकर अली के मकान को छोड़ते हुये मिश्री के मकान को शामिल करते हुये यही से दायी और घूमकर नई अनाज मण्डी के पीछे खाली खेतों की तरफ निकलकर दायी और घूमकर कच्चे रास्ते पर चलते हुये कुषाल लेक कब्रिस्तान शमशुन घाट तक । यह वाई नं 55 कहलायेगा	वाई नं 55 की कुल जन संख्या 2178
56	बालाजी जेन्ट पार्लर से उस्मानी दवाखाना को छोड़ते हुये बी.के. मेडिकल स्टोर को शामिल कर जुम्मा खा के मकान को छोड़ते हुये पूर्व पार्शद अब्दुल समद के मकान को शामिल करते हुये शाहीन स्कुल को शामिल करते हुये यही से वाई और घूमकर गंदे नाले के पार कर यही से गंदे नाले के सहारे सहारे चलते हुये हीरालाल मोक्षधाम को शामिल कर यही से दायी ओर घूमकर आगे वायी ओर घूमकर ब्रेकरी वाली गली में चलकर महिदास बालाजी को शामिल करते हुये पूर्व पार्शद महेश कटारिया के मकान को शामिल कर यही से बायी ओर घूमकर बालाजी जेन्ट पार्लर पर मिलता है। वाई नं 56 कहलायेगा।	वाई नं 56 की कुल जन संख्या 2198
57	40 फीट रोड पर इन्द्र कुमार पाराशर के मकान से वाई और की आबादी को लेकर वेजनाथ बसल के मकान को छोड़कर फैजान मंजिल इरफान पठान के मकान को शामिल करते हुये अकरवुद्दीन दर्जी के मकान को छोड़कर यही से दायी और घूमकर बवलू पेड हाऊस को शामिल कर यही से वाई और घूमकर बास गौदाम को शामिल कर अब्दुल कलाम के मकान को छोड़कर यही से बाई और घूमकर पक्की रोड पर सीधे सीधे चलते हुये जब्बार दर्जी के मकान को शामिल कर इकराम दर्जी के मकान को छोड़कर अलहीरा	वाई नं 57 की कुल जन संख्या 2408

	<p>स्कूल को छोड़ते हुये रोड से वाई और घूमकर साबु के मकान को शामिल करते हुये यासिन पुत्र रसीदा कबाडी के मकान को छोड़ते हुये यही से दायी और घुमकर अबुकर मस्जिद को छोड़ते हुये जुल्फीकार के मकान को छोड़ते हुये यही से दायी ओर घूमकर आगे चलकर हीरालाल तिवारे को छोड़ते हुये यही से बायी और घुमकर गन्दे नाले के सहारे सहारे चलते हुये पत्रकार कालोनी से पहले बायी और घूमकर रहीस खा के मकान को छोड़कर यही से वाई और घुमकर कच्चे रास्ते पर चलते हुये कैलाश शर्मा के मकान को शामिल कर जोनी सिन्धी के मकान को छोड़कर 40 फीट रोड पर इन्द्र कुमार पाराशर के मकान पर मिलता है। वार्ड नं 57 कहलायेगा।</p>	
58	<p>जयपुर रोड रिया ओटो पाटर्स से चलकर अलीष कोल्ड टायर रिटेडिग कम्पनी के सामने के बाई और घुमकर पदम मील चलते हुये शान्ति मेहरवाल अस्पताल को शामिल कर भौमिया जील के वाग को छोड़ते हुये रामचरण कटारिया के मकान को शामिल करते हुये ईशाक कबाडी को शामिल कर दशहरा मैदान को छोड़कर महिदास बालाजी को छोड़ कर यही से बेक्ररी वाली गली में चलते हुये गली में से निकल कर यही से वायी और घूमकर वाजिद खा चलने वाले के मकान को शामिल कर जुल्फकार मास्टर को शामिल कर यही वायी और घुमकर अबुकर मस्जिद को शामिल कर सलीम खा के मकान को छोड़ कर यासीन पुत्र रशीदा के मकान को शामिल कर यही से वायी और घुमकर साबु के मकान को छोड़ते हुये अलहीरा स्कूल को शामिल कर इकराम दर्जी के मकान को शामिल कर जब्बार के मकान को छोड़कर वास गोदाम अब्दुल सलाम को छोड़कर सलाम थानेदार के यहा से गुर्जर के खेतो के पीछे निकल कर पतली गली में होकर राजीव कालोनी के चौक पर पिन्टू किराना स्टोर पर निकलता है व यही से मुख्य सडक जयपुर रोड पर रिया ओटो पाटर्स पर मिलता है। वार्ड नं 58 कहलायेगा।</p>	<p>वार्ड नं 58 की कुल जन संख्या 2495</p>
59	<p>जयपुर रोड विमला गुप्ता के मकान से चलते हुये राजीव कालोनी पिन्टू किराना स्टोर को छोड़ते हुये यही से दायी ओर पतली गली से निकल कर गुर्जरो के खेतो के पीछे होकर रामचरण कटारिया के मकान के पीछे होते हुये सलाम थानेदार के यहा पर निकल कर अब्दुल सलाम के मकान को शामिल कर यही से वायी और घुमकर वास गोदाम को छोड़ते हुये बबलू पेड हाऊस को छोड़कर यही से दायी ओर घुमकर फैजान मंजिल इरफान पठान के मकान को छोड़कर बैजनाथ बंसल के मकान को शामिल कर इन्द्र कुमार पाराशर के मकान को शामिल कर यही से वायी और घुमकर शमशान भूमि 40 फीट रोड से निकल कर सेड रोड पर वाई और घुमकर शीतला मन्दिर को छोड़ते हुये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश चन्द सिंधल के मकान को शामिल करते हुये ट्रक युनियन चैराहा होते हुये जयपुर रोड पर विमला गुप्ता के मकान पर मिलता है। वार्ड नं 59 कहलायेगा।</p>	<p>वार्ड नं 59 की कुल जन संख्या 2220</p>

60	<p>सेड रोड शमशान घाट के पास रिया फर्नीचर्स की दुकान को शामिल कर अली गंज रोड पर चलते हुये कमरुद्दीन हाजी की कबाडी की दुकान को शामिल करते हुये नेशनल टेडिंग कम्पनी को छोडते हुये दुल्हन मैरिज होल को शामिल करते हुये वाई पास अलीगंज चैराहे से वाईपास रोड पर दायी ओर घुमकर दायी ओर के समस्त खाली खेतो को शामिल करते हुये चैधरी होटल को छोडते हुये यही से वाई पास रोड से वायी ओर घुमकर कच्चे रास्ते पर चलते हुये रहीस खान के मकान को शामिल कर कच्चे रास्ते पर चलते हुये कैलाश शर्मा के मकान को छोडते हुये जोनी सिन्धी के मकान को शामिल कर 40 फीट रोड पर चलते हुये इन्द्र कुमार पाराशर के मकान को छोडते हुये शमशान भूमि से निकल कर सेड रोड रिया फर्नीचर्स पर मिलता है। वार्ड नं 60 कहलायेगा।</p>	<p>वार्ड नं 60 की कुल जन संख्या 2162</p>
----	---	--

आयुक्त  
नगर परिषद गंगापुर सिटी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।